

Vacancy

Applications are invited for the post of Senior Project Associate & Project Associate -1 in DBT project
Project Name – Mission Program On Pediatric Rare Genetic Disorders.(BT-2196)

Name of the Post	Salary	Number of Post	Qualifications	Age limit
Senior Project Associate	42,000 + 24 % HRA	01	<p>पीएचडी जीनोमिक्स/जैव सूचना विज्ञान/जीवन विज्ञान या समकक्ष डिग्री Ph.D Genomics/ Bioinformatics/life sciences OR equivalent degree या/ OR</p> <p>किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एम.एससी/एम.टेक बायोइन्फॉर्मेटिक्स/ह्यूमन जेनेटिक्स की डिग्री या साइंस साइडेशन इंडेक्स (एससीआई) जर्नल में कम से कम एक शोध पत्र के समकक्ष।</p> <p>M.sc/M.Tech Bioinformatics/Human genetics degree from a recognized University or equivalent with at least one research paper in Science Citation Indexed (SCI) journal.</p> <p>डीएनए सिक्वेन्सिंग, आरएनए- सिक्वेन्सिंग एवं होल जीनोम सिक्वेन्सिंग डाटा का विश्लेषण करने में विशेषज्ञता जीनोम डाटाबेस; मानक प्रोटोकॉल और पाइपलाइन से परिचित, इसके साथ ही कस्टम पाइपलाइन को विकसित करने की क्षमता एवं गुणवत्ता नियंत्रण, अलाइनमेंट, क्वांटिफिकेशन एवं विश्लेषण हेतु एवं फास्ट क्यूसी, डीमोमेटिक और एचआईएसएटी 2 जैसे उपकरणों पर विशेषज्ञता वाले 4 साल का अनुभव उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी।</p> <p>Candidates with experience of 4 years in analyzing genomic sequencing data, including DNA sequencing, RNA-Seq, and whole-genome sequencing data, familiarity with genomic databases, standard protocols and pipelines, as well as the ability to develop custom pipelines and mastery over tools like FastQC, trimmomatic and HISAT2 for quality control, alignment, quantification and analysis would be given preference.</p>	Upto 40 years

Interested candidates may submit their CV along with a covering letter specifying the post applied for in person

geneticsaiims1@gmail.com/Room No-840, Eight floor, Division of Genetics, Department of Pediatrics, MCB Block

Last date of receiving the application 09th Jan 2025 by 5:00pm

Only shortlisted candidates will be invited for interview. No TA/DA will be provided for attending the interview

Dr. Neeta Gupta/Dr. Neeta Gupta
अपनी आवेदन पत्रों के साथ, बाल चिकित्सा विभाग
Genetics, Dept. of Pediatrics, MCB Block
New Delhi-29
अ.प्र.शा.सं. DMC Reg. No. 43435